



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 30.08.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा




## पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 30.08.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 30.08.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में दिनांक 29.08.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित टीम उ0नि0 विनोद कुमार सिंह द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1.नीटू माहौर पुत्र स्व0 राजाराम उम्र करीब 32 वर्ष 2.मो0 नसीम पुत्र स्व0 मो0 अनवर उम्र करीब 44 वर्ष को एक झोले में क्रमशः 22-22 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब ( कुल 44 क्वार्टर ठेका देशी) के साथ पंचमुखी से चमन चौराहा जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 227/2022 व 228/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 विनोद कुमारसिंह
- 2.कां0 जितेन्द्र कुमार
- 3.कां0 प्रशांक कुमार
- 4.कां0 विकास कुमार

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.नीटू माहौर पुत्र स्व0 राजाराम उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 जमीदारी कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद
- 2.मो0 नसीम पुत्र स्व0 मो0 अनवर उम्र करीब 44 वर्ष निवासी मु0 जमीदारी कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

### बरामदगी-

कुल 44 क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 30.08.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना पनवाडी पुलिस टीम ने नियमों की अनदेखी कर परिवहन कर रहे 02 ट्रैक्टर को मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये सीज ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय महोबा पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

जनपदीय पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के प्रति आमजनमानस को जागरूक किया जाता है व नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में आज दिनांक 30.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री शिवआसरे द्वारा गठित की गयी उ0नि0 रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 02 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली जिसमें बालू लदी थी दिखे जिन्हे थानाक्षेत्र अन्तर्गत नहर पुलिया पर रोंका गया ट्रैक्टर चालक से ट्रैक्टर व उसमें लदी बालू के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा प्रथम ट्रैक्टर महिन्द्रा 257 DI लाल रंग **UP95S7580** मय ट्राली अवैध बालू भरी हुयी, द्वितीय ट्रैक्टर सोनालिका DI नीले रंग गाडी नम्बर अंकित नहीं, चेचिस नं. **BYASS81908153** मय ट्राली अवैध बालू भरी हुयी को मोटर वाहन अधिनियम 207 एमवी एक्ट के तहत नियमानुसार सीज की कार्यवाही की गयी गयी, ट्रैक्टर ट्राली में अवैध भरी हुयी बालू के सम्बन्ध में खनिज विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

## कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रवि कुमार सिंह
2. कां0 राहुल यादव







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 30.08.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।



आज दिनांक **30.08.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा संवेदनशील स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा

आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । यातायात नियमों के उल्लंघन पर **84** ई-चालान किये गये ।







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 30.08.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस